



821  
रसीद दस्तावेज जर्नल 74  
मुकाम *NR*  
दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत

तादाद फीस ( अगर हो तो ) दाखल शुदा	3	गजिस्ट्री के मोहदेदा के छोटे दस्तखत	4
-----------------------------------	---	-------------------------------------	---

*श्रीमती स्वदेश शुक्ला*  
*175000*  
*1203000/-*  
3800/-  
उप-पंजीयक  
दिनांक 26-11-71



!! श्री !! G 674104  
:: विक्रय विलेख :: 1203000/-

मुद्रांक शुल्क रुपये @ 5.0%	8,750/-	वार्ड क्रमांक -28 (नया क्रमांक-14)
कार्पोरेशन ड्यूटी	1,750/-	व्यवहार मूल्य रूपये 1,75,000/-
पंचायत ड्यूटी	1,750/-	उचित बाजार मूल्य रूपये 1,75,000/-
कुल स्टाम्प ड्यूटी	12,250/-	(रूपये एक लाख पचहत्तर हजार सिर्फ)

म्यु. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " का विक्रय विलेख।

विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पदमाकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्त्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतापक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

821  
26-11-71

अविरत...2...पर  
For Siddharth Construction Co.  
*Swadeshi*  
For Rajhans Fertilizers Ltd.,  
*Director*  
*Partner*



यह विक्रय विलेख विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष के हित में निम्नानुसार निष्पादित किया जाता है कि :-

(1) यह कि, विक्रेतापक्ष क्रमांक एक एवं दो के स्वामित्व व आधिपत्य का भवन क्रमांक 164, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) यहां पर स्थित है, इस भवन का पूर्व क्रमांक 110 है तथा उक्त सम्पत्ति विक्रेतापक्ष क्रमांक एक एवं दो के परिवार की सम्पत्ति है और यह सम्पत्ति विक्रेता पक्ष क्रमांक एक एवं दो को उत्तराधिकारी नाते से प्राप्त हुई है । इस प्रकार यह सम्पूर्ण सम्पत्ति विक्रेता पक्ष क्रमांक एक एवं दो के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है । इस भवन की तल भूमि का योग क्षेत्रफल 8000 वर्गफीट है । यह सम्पत्ति उत्तर मुखी होकर भवन का पुर्ननिर्माण स्वीकृत मानचित्र दाखला क्रमांक 634 दिनांक 06.06.1990 के अनुसार किया गया है । यह भवन "मूल्ये टॉवर" के नाम से जाना जाता है। इस भवन की चर्तुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	म्यूनिसीपल गार्डन (बोलिया छत्री उद्यान)
पश्चिम में	मृगनयनी एम्पोरियम
उत्तर में	सरकारी सडक (एम.जी.रोड़)
दक्षिण में	बोलिया सरकार की छत्री का कम्पाउण्ड

(2) यह कि, उक्त भवन विक्रेता क्रमांक एक एवं दो से विक्रेता क्रमांक तीन ने क्रय करने का अनुबंध दिनांक 3.2.1987 को किया है तथा इस अनुबंध में भवन निर्माण करने के अधिकार भी प्राप्त किये हैं, जिस अनुसार स्वीकृत मानचित्र अनुसार भवन निर्माण किया गया है । विक्रेता क्रमांक तीन ने उक्त भवन में विक्रय व्यवहार के लिये विक्रेता क्रमांक एक एवं दो को कोई प्रतिफल राशि लेना शेष नहीं है । विक्रेता क्रमांक एक एवं दो ने उक्त भवन का रिक्त कब्जा भी विक्रेतापक्ष क्रमांक तीन को दे दिया होकर उसके पश्चात् भवन निर्माण किया है ।

(3) यह कि, विक्रेता पक्ष क्रमांक एक एवं दो ने उक्त सम्पत्ति की समस्त व्यवस्था संचालन एवं विक्रय आदि के लिये हस्ताक्षरकर्ता अनूपकुमार गुप्ता को पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक 4अ/342(ख)/1991 दिनांक 29.01.1991 के द्वारा आम मुख्यार नियुक्त किया है तथा यह लेख आज भी प्रभावशील है । विक्रेता क्रमांक एक एवं दो की ओर से अनूपकुमार गुप्ता ने आम मुख्यार की हैसियत से अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

(4) उपरोक्त वर्णित भवन पैकि एक प्रकोष्ठ का आवंटन विक्रय रीति से विक्रेतापक्ष के द्वारा क्रेतापक्ष के हित में किया जा रहा है । अतः यह लेख साक्षांकित करता है कि :-

अविरत...3...पर

For Siddharth Construction Co.

Partner

For Rajhans Fertilizers Ltd.,

Director

विडिता - विडिता छ. 1 व 2 तर्फे काम मुक्क्याए

अनुपकुमार पित्त कायलगत ली मुकता  
पता - रण्य। खण्णम केडी इन्दी

③ मेसर्स विप्लवि कासक्रमण कुमुपणी लर्मे सागीदाए  
अरवि-५ पिता C-1 दाजुमन ली पाएवाए पता 30/11 खण्णम कुकोण्ड इन्दी

श्रीमती लवदेवा कुम्बेरा प्रति कुण्डेश कुम्बेरा  
पता - 33-ली खण्णम व-5। खण्णम नगर के पाए

~~अनुप कुमुपणी कासक्रमण~~ इन्दी  
अधिकार कएने हे कि तयाकापि  
विक्रि किये कएने कएने किये  
गयाथा तथा प्रतिकार के पूरे/अंशिक  
रु. 175000/- रु. 100000/-  
(अको व कएने को कएने हो कएने हे  
तथा रु. 400000/- कएने व  
कएने में कएने के कएने में  
कएने के कएने के और कएने की  
कएने रकम यथा रु. 1/-  
कएने हे जो पंजीयन के बाद कएने  
कएने कएने

- ① डा. अशोक डा. आनन्द कएने  
सै 10 (कएने कएने कएने)
- ② सा. कायल डा. शशान लला कायल  
खण्णम नगर 1/31 इन्दी

डा. अशोक निष्काशक / निष्काशक  
डा. शशान के निष्काशक के कएने हे।  
कएने 26-11-11

*(Handwritten signature)*

**:: बिक्रीत प्रकोष्ठ का विस्तृत विवरण ::**

म्यु. पा. क्रमांक 164 (पुराना क्रमांक 110), महात्मागांधी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) पर निर्मित भवन "मूल्ये टॉवर" पैकी तृतीय मंजिल पर निर्मित प्रकोष्ठ क्रमांक 317 है। उक्त प्रकोष्ठ का कुल सुपर बिल्टअप एरिया करीब 350 वर्गफीट (अर्थात् करीब 32.52 वर्गमीटर) है। उक्त प्रकोष्ठ के निकास की व्यवस्था भवन के कॉमन चढ़ाव, कॉमन पैसेज व तल मंजिल के गलियारे में से होकर भवन के उत्तर दिशा स्थित सरकारी सड़क से है। उक्त प्रकोष्ठ का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर स्थित भवन के कॉमन गलियारे की ओर खुलता है। उक्त प्रकोष्ठ की पार्टिशन वॉल शामलाती उपयोग की होकर इस विक्रय में छत के अधिकार सम्मिलित नहीं है। उक्त प्रकोष्ठ इस विक्रय विलेख के हस्तांतरण की विषयवस्तु है, जिसे सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से इस लेख में आगे " उक्त प्रकोष्ठ " के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त प्रकोष्ठ कार्यालयीन उपयोग का होकर निजी स्वामित्व का है। उक्त प्रकोष्ठ की चर्तुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	म्युनिसपल गार्डन
पश्चिम में	प्रकोष्ठ क्रमांक 318
उत्तर में	सरकारी सड़क (एम.जी.रोड)
दक्षिण में	भवन का कॉमन पैसेज

(5) यह कि, पूर्व चरण क्रमांक (4) में वर्णित उपरोक्त प्रकोष्ठ क्रमांक 317 विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को मरा मालकी हक्क सहित कुल कीमत रूपये 1,75,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख पचहत्तर हजार सिर्फ) में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि क्रेतापक्ष ने विक्रेतापक्ष क्रमांक तीन को विभिन्न रीतियों से अदा कर दी है, जिसकी प्राप्ति विक्रेतापक्ष स्वीकार करते हैं, व अब इस विक्रय प्रतिफल बाबद क्रेतापक्ष से कुछ भी राशि लेना देना शेष नहीं है।

(6) यह कि, बिक्रीत प्रकोष्ठ का रिक्त एवं मूर्तिमंत कब्जा विक्रेतापक्ष ने पूर्व मे ही साक्षीगण के समक्ष क्रेतापक्ष को सौंप दिया है। बिक्रीत प्रकोष्ठ को संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया होकर उक्त मानचित्र इस लेख का अभिन्न अंग माना जावेगा।

(7) यह कि, आप क्रेतापक्ष को इस भवन के कॉमन पैसेज, पार्किंग स्थल, चढ़ाव, लिफ्ट, उपकरणों, यंत्रों व ट्यूबवेल आदि के शामलाती उपयोग-उपभोग करने के अधिकार इस भवन के अन्य प्रकोष्ठ स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से रहेगा। आप क्रेतापक्ष के द्वारा उक्त सुख-सुविधाओं पर ऐसा कोई भी अतिक्रमण अथवा व्यवधान नहीं किया जावेगा जिससे कि अन्य प्रकोष्ठ स्वामियों को असुविधा हो व उनके अधिकारों को बाधा उत्पन्न होती हो।

अविरत....4....पर

*[Signature]*

For Siddharth Construction Co.

*[Signature]*  
Partner

*[Signature]*

For Rajhans Fertilizers Ltd.,

*[Signature]*

Director



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

~~3724 99 पाठ~~

विचार के समय का  
दिनांक 26-11-11

~~Handwritten text~~



For Siddharth Construction Co.

*Handwritten signature*  
Partner



*Handwritten signature*

~~3719-4~~

विचार के समय का  
दिनांक 26-11-11

~~Handwritten text~~



*Handwritten signature: Swadesh*

~~3718-3~~

विचार के समय का  
दिनांक 26-11-11

~~Handwritten text~~

*Vertical handwritten text on the right margin*

(8) यह कि, उक्त अन्तरण से म.प्र. शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 एवं म.प्र. विनिर्दिष्ट भूट आचरण निधारण अधिनियम 1982 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है, तथा इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर के द्वारा स्वीकृत मानचित्र अनुसार भवन निर्माण कार्य किया गया है ।

(9) यह कि, आप क्रेतापक्ष उक्त भवन के रख-रखाव एवं सुविधा को बनाये रखने के लिये इस भवन के अन्य प्रकोष्ठ स्वामियों के साथ मिलकर एक रख-रखाव समिति का गठन कर सकेंगे । उक्त समिति के द्वारा सम्पूर्ण भवन के रख-रखाव की व्यवस्था की जावेगी, जिसके खर्च का आनुपातिक भाग आप क्रेतापक्ष के द्वारा वहन किया जावेगा ।

(10) यह कि, आप क्रेता इस बिक्रीत प्रकोष्ठ के कालम, बीम, छत व पार्टीशन वाल में ऐसा कोई एडिशन-आल्ट्रेशन या नव निर्माण नहीं कर सकेंगे, जिससे कि भवन की दृढ़ता एवं सुन्दरता को, उपर व नीचे के प्रकोष्ठ स्वामियों को असुविधा होकर उनके अधिकारों को क्षति पहुंचती हो । यदि आप क्रेतापक्ष की ओर से ऐसा कोई कार्य किया जाना सिद्ध पाया गया तो उसकी नुकसानी एवं क्षतिपूर्ति का दायित्व आप क्रेतापक्ष का रहेगा ।

(11) यह कि, आप क्रेतापक्ष बिक्रीत भाग में ऐसा कोई व्यवसाय अथवा अवैध संग्रहण नहीं कर सकेंगे जो कि गैर कानूनी कृत्य की परिभाषा में आकर अवैध हो । इसी प्रकार उक्त बिक्रीत भाग में ऐसी कोई मशीनरी आदि की स्थापना नहीं करेंगे जिससे कि काफी शोर उत्पन्न होकर भवन की दृढ़ता व सुन्दरता को क्षति पहुंचती हो ।

(12) यह कि, आप क्रेता बिक्रीत भाग के लिये नैसर्गिक दुर्घटना व आग आदि से सुरक्षा के लिये अपने व्यय से बीमा करवा सकेंगे । भवन जमींदोज होने की दशा में आप क्रेतापक्ष को निश्चित क्षेत्रफल एवं बिक्रीत स्थान पर निर्माण का अधिकार प्रचलित नियमानुसार रहेगा ।

(13) यह कि, विक्रेतापक्ष एतद् द्वारा घोषित एवं निश्चित करते हैं कि विक्रय किये जा रहे प्रकोष्ठ समस्त प्रकार के भार-बोझ व अन्तरण से मुक्त होकर ऐसे किसी भी अन्तरण के लिये विक्रेतापक्ष द्वारा कोई लिखतम आदि का निष्पादन भी नहीं किया है तथा विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद किसी भी प्रकार का पारिवारिक या न्यायिक विवाद आदि वर्तमान में लंबित नहीं है । बिक्रीत सम्पत्ति सर्वभार मुक्त है ।

(14) यह कि, बिक्रीत सम्पत्ति विक्रेतापक्ष के एकमेव स्वामित्व की है । भविष्य में विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद आधिपत्य दिनांक से पूर्व के लिये किसी भी प्रकार का विवाद या दोष पाया गया तो उसके निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा इस कारण से आप क्रेतापक्ष को किसी भी प्रकार का खर्च या नुकसानी नहीं लगने देंगे । समस्त प्रकार के आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर एवं सहमति करवाने का दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा ।


अविरत....5....पर

For Rajhans Fertilizer Co. Ltd.  
Director.

For Siddharth Construction Co.  
Partner.



Handwritten signature or initials.




Handwritten text:   
 २१/११/११  
 २६/११/११  
 निवासे परी वपल हा...  
 की निवासे परा ।

Handwritten signature or initials.



Handwritten text: २१/११



Handwritten text:   
 २१/११  
 निवासे परी वपल हा...  
 की निवासे परा । २६-११-११

Handwritten signature or initials.





(15) यह कि, क्रेतापक्ष उक्त प्रकोष्ठ में अपने स्वयं के व्यय पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें विक्रेतापक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी । उक्त प्रकोष्ठ करीब बीस वर्ष से भी अधिक पुराना निर्मित किया हुआ है ।

(16) यह कि, आप क्रेतापक्ष उक्त भवन के रख-रखाव एवं सुविधा को बनाये रखने के लिये इस भवन के अन्य प्रकोष्ठ स्वामियों के साथ मिलकर एक रख-रखाव समिति का गठन कर सकेंगे । उक्त समिति के द्वारा सम्पूर्ण भवन के रख-रखाव की व्यवस्था की जावेगी, जिसके खर्च का आनुपातिक भाग आप क्रेतापक्ष के द्वारा वहन किया जावेगा ।

(17) यह कि, आप क्रेता इस बिक्रीत प्रकोष्ठ के कालम, बीम, छत व पार्टीशन वाल में ऐसा कोई एडिशन-आल्ट्रेशन या नव निर्माण नहीं कर सकेंगे, जिससे कि भवन की दृढ़ता एवं सुन्दरता को, उपर व नीचे के प्रकोष्ठ स्वामियों को असुविधा होकर उनके अधिकारों को क्षति पहुंचती हो । यदि आप क्रेतापक्ष की ओर से ऐसा कोई कार्य किया जाना सिद्ध पाया गया तो उसकी नुकसानी एवं क्षतिपूर्ति का दायित्व आप क्रेतापक्ष का रहेगा ।

(18) यह कि, आप क्रेतापक्ष बिक्रीत भाग में ऐसा कोई व्यवसाय अथवा अवैध संग्रहण नहीं कर सकेंगे जो कि गैर कानूनी कृत्य की परिभाषा में आकर अवैध हो । इसी प्रकार उक्त बिक्रीत भाग में ऐसी कोई मशीनरी आदि की स्थापना नहीं करेंगे जिससे कि काफी शोर उत्पन्न होकर भवन की दृढ़ता व सुन्दरता को क्षति पहुंचती हो ।

(19) यह कि, आप क्रेता बिक्रीत भाग के लिये नैसर्गिक दुर्घटना व आग आदि से सुरक्षा के लिये अपने व्यय से बीमा करवा सकेंगे । भवन जमींदोज होने की दशा में आप क्रेतापक्ष को निश्चित क्षेत्रफल एवं बिक्रीत स्थान पर निर्माण का अधिकार प्रचलित नियमानुसार रहेगा ।

(20) यह कि, विक्रेतापक्ष एतद् द्वारा घोषित एवं निश्चित करते हैं कि विक्रय किये जा रहे प्रकोष्ठ समस्त प्रकार के भार-बोझ व अन्तरण से मुक्त होकर ऐसे किसी भी अन्तरण के लिये विक्रेतापक्ष द्वारा कोई लिखतम आदि का निष्पादन भी नहीं किया है तथा विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद किसी भी प्रकार का पारिवारिक या न्यायिक विवाद आदि वर्तमान में लंबित नहीं है । बिक्रीत सम्पत्ति सर्वभार मुक्त है ।

(21) यह कि, बिक्रीत सम्पत्ति विक्रेतापक्ष के एकमेव स्वामित्व की है । भविष्य में विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद आधिपत्य दिनांक से पूर्व के लिये किसी भी प्रकार का विवाद या दोष पाया गया तो उसके निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा इस कारण से आप क्रेतापक्ष को किसी भी प्रकार का खर्च या नुकसानी नहीं लगने देंगे । समस्त प्रकार के आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर एवं सहमति करवाने का दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा ।


अविरत....6....पर

For Rajhans Fertilizers Ltd.,

Director

For Siddharth Construction Co.

Partner



(22) यह कि, विक्रेतापक्ष उक्त भवन के लिये म.प्र. सह-स्वामित्व भवन अधिनियम 1976 की धारा 2 के तहत घोषणा पत्र का पंजीयन श्रीमान् उप-पंजीयक महोदय, इन्दौर के कार्यालय में पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक 1अ/275(क) दिनांक 12.4.1991 के द्वारा पंजीकृत करवा लिया है ।

(23) यह कि, उक्त प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को विक्रय कर देने से इसके स्वामित्व बाबद विक्रेतापक्ष एवं उनके हितग्राहियों में निहित समस्त हक्क, अधिकार इस लेख के द्वारा अंतरित होकर आप क्रेतापक्ष में वेष्टित हो गये हैं। आप क्रेतापक्ष उक्त बिक्रीत सम्पत्ति का स्वेच्छानुसार उपयोग-उपभोग व अन्तरण इत्यादि कर सकेंगे, जिसमें विक्रेतापक्ष को कोई उजर या आपत्ति नहीं रहेगी ।

(24) यह कि, उक्त प्रकोष्ठ के लिये देय समस्त टेक्सेस व अन्य चार्ज मेन्टेनेन्स चार्ज आदि क्रेतापक्ष द्वारा भुगतान किया जावेगा, जिसके लिये विक्रेतापक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी ।

(25) यह कि, आप क्रेतापक्ष उक्त प्रकोष्ठ के स्वामित्व बाबद अपना नामान्तरण सम्बन्धित रेकार्ड्स व अभिलेख में स्वयं के व्यय से करवा सकेंगे तथा इस कार्यवाही में विक्रेतापक्ष पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

(26) यह कि, उक्त विक्रय पत्र में वर्णित समस्त शर्तों का पालन आप क्रेतापक्ष तथा आपके माध्यम से समय-समय पर स्वत्व ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जावेगा तथा इस हेतु वे वचनबद्ध हैं ।


(27) यह कि, इस भवन की अंतिम छत का स्वामित्व व निर्माण कर विक्रय करने का अधिकार विक्रेतापक्ष अपने पास सुरक्षित रखते हैं तथा इस भवन की तल भूमि में समस्त प्रकोष्ठ स्वामियों को संयुक्त रूप से आनुपातिक अधिकार प्राप्त होंगे ।


(28) यह कि, विक्रय विलेख में जहाँ-जहाँ भी "विक्रेतापक्ष" एवं "क्रेतापक्ष" के नाम का सम्बोधन किया गया है, उनमें उभयपक्ष स्वयं, उनके विधिक उत्तराधिकारीगण, भागीदार, प्रतिनिधि, मुख्याय, प्रशासक, असाईनर एवम् उभयपक्षों के अन्तर्गत दावा एवं अधिकार रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है ।

अविरत....7....पर

For Siddharth Construction Co.


  
Partner

  
For Rajhans Fertilizers Ltd.,  
Director.





अतः यह विक्रय विलेख आज दिनांक 26 नवम्बर 2011 को इन्दौर (म.प्र.) में विक्रेतापक्ष ने अपनी स्वेच्छा से तथा अपनी स्वतंत्र सहमति से, बिना किसी धौंस-दबाव एवं अनुचित प्रलोभन के अपनी स्वस्थ, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में साक्षीगणों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर केतापक्ष के हित में निष्पादित कर दिया, सो सही ।

<p><b>साक्षीगण</b></p> <p>(1) <i>[Signature]</i>          S. S. VADYA          10, 5th C,          New Palace          Indore          S. S. VADYA 5/1. अनन्त वैद्य</p>	<p>हस्ताक्षर-विक्रेता क्रमांक 1 व 2</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(अनूपकुमार गुप्ता)          आम मुख्यार नाते से</p>
<p>(2) <i>[Signature]</i>          शैलेश लाल वायस          24/31 नगर A/31          इन्दौर</p>	<p>हस्ताक्षर-विक्रेता क्रमांक 3          For Siddharth Construction Co.  <i>[Signature]</i>          Partner          (अरविन्द पोरवाल)          भागीदार नाते से</p> <p>हस्ताक्षर-केतापक्ष</p> <p><i>[Signature]</i>          (श्रीमती स्वदेश शुक्ला)</p>
<p><b>नोट :-</b> ये फोटो क्रमशः मुख्यारकर्ता न्यायमूर्ति श्री पदमाकर मुल्ये व श्री केशव मुल्ये के हैं, जिन्हें मैं निष्पादक/मुख्यार अनूपकुमार गुप्ता अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूँ ।</p>	
	<p>उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं निर्देशानुसार यह विलेख मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया।</p> <p>51</p> <p>एस. के. जैन (हातोदवाला)          अभिभाषक          आफिस नंबर 135-136, मूल्ये टॉवर,          164, एम जी रोड, इन्दौर (म.प्र.)          ☎-2431539, 2481038          📠 94250-59973</p>

For Siddharth Construction Co.

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Partner

For Rajhans Fertilizers Ltd.,  
*[Signature]*  
 Director.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

715753

715753

!! श्री !!

म्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1) न्यायमूर्ति श्री पद्माकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2) श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3) मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतपक्ष :	श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajhans Fertilizers Ltd.,  
  
Director.

92922/12

3 DEC 2011

$\frac{2000}{2}$	$\frac{2000}{3}$	$\frac{9000}{3}$	$\frac{900}{2}$	900
				- 12,290

~~बिना लगे पिसी की एजेन्सि + मा~~

39-C, सी 51 (बिना)

ए. प्रदीप

~~मिडिलेरी की पदनाम मुद्रा 34 अक्षर~~

~~अक्षर अक्षरनाम मुद्रा 34 अक्षर~~

~~म. बिना लगे + मा 30/11/11. एजेन्सि (बिना)~~

(बिना लगे)


एजेन्सि

**Surendra R. J.**  
 (HATOD, WALA)  
 STAMP-VENDOR  
 94250-7

12 DEC 2011

Handwritten marks and scribbles at the bottom right corner.





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 189036

!! श्री !!

म्यु. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1) न्यायमूर्ति श्री पदमाकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2) श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3) मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतापक्ष :	श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajasthan Fertilizers Ltd.,  
  
 Director

92928

13 DEC 2011

प्रथम पेज के साथ संलग्न



**Surendra R. Jain**  
(HATOD-WALA)  
STAMP-VENDOR  
Dist. Court Compound, DURG  
☎-5086480 Mob. 94250-7502

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
25000

पच्चीस हजार रुपये



सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.  
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

715754

!! श्री !!

म्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।


विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पदमाकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतुपक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajhans Fertilizers Ltd  
Director.

13 DEC 2011


92923

प्रथम पेज के साथ संलग्न



**Surendra R. Ja**  
(HATODI WALA)  
STAMP-VENDOR  
Dist. Court Compound, INDC  
-5086480 Mob. 94250-751

Advent...



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 189037

E 189037

!! श्री !!

म्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पदमाकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फ आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
क्रेतापक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)


For Rajhans Fertilizers Ltd.,

Director.

90922

13 DEC 2011

प्रथम पंज के साथ संलग्न



**Surendra G. Jain**

(F.A. / M.A. / B.A.)  
S.A. / P.A. / S.D.A.

Dist. Court, ...  
Tel: -5086480 ...


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 189038

!! श्री !!

म्यु. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।


विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पद्माकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फ आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतापक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajhans Fertilizers Ltd.,  
  
Director.

9092E

13 DEC 2011

प्रथम पत्र के साथ संलग्न



**Surendra R. Jain**  
(M.F.O. WALA)  
STAMP VENDOR  
Dist. Co. 1 Comptour, INDR  
☎-5086480 Mob. 94250-75022

12 DEC 2011



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 197901

!! श्री !!

म्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पद्माकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फ आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतापक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)


For Rajhans Fertilizers Ltd.,

*[Signature]*  
Director.

13 DEC 2011

92926

प्रथम बैच के साथ संलग्न



**Surendra B. Jain**

(HATCHER)

STA. MANAGER

Dist. Court. Compound, INDORE

☎-5086480 Mob. 94250-7500

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 197902

!! श्री !!

स्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पद्माकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतुपक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajhans Fertilizers Ltd.,

Director

13 DEC 2011

92922

प्रथम पंज के साथ संलग्न



**Surendra R. Jain**  
(HATCHER) (LA)  
STAMPED FOR  
Dist. Court Gandhinagar, BANGALORE  
☎-5086480 FAX-54250-750

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 197903

!! श्री !!

सू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पद्माकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतुपक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)


For Rajhans Fertilizers Ltd.,

Director.

90920

13 DEC 2011

प्रथम पेश के साथ संलग्न



**Surendra R. Jain**  
(HATODIYALA)  
STAMPED FOR  
Dist. Court, Chandernagore  
5086480




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

U 270173

!! श्री !!

म्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पद्माकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
क्रेतापक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajhans Fertilizers Ltd.,  
  
 Director

१८९६०

13 DEC 2011

प्रथम पेज के साथ संलग्न

**Surendra R. Jain**  
(HATTA WALA)  
STATIONER  
Dist. Court Compound, INDOR  
-5086480 Mob. 94250-7500





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH


U 270174

!! श्री !!

म्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1)	न्यायमूर्ति श्री पद्माकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2)	श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3)	मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
केतापक्ष :		श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajhans Fertilizers Ltd.,

  
Director

13 DEC 2010

१८९६९

प्रथम पेज के साथ संलग्न

**Surendra R. Jain**

(HATODI WALA)

STAMP-VENDOR

Dist. Court. Compound, INDORE

☎-5086480 Mob. 94250-23

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

30AA 888105

!! श्री !!

म्यू. पा. क्रमांक 164, (पुराना क्र. 110) एम.जी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.)  
की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला भवन "मूल्ये टॉवर" की तृतीय मंजिल  
पर स्थित " प्रकोष्ठ क्रमांक 317 " के विक्रय विलेख  
के साथ संलग्न पूर्वणी स्टाम्प।

विक्रेतापक्ष :	(1) न्यायमूर्ति श्री पदमाकर पिता श्री दिनकरजी मूल्ये, पता-397, एन.डी. स्कीम नं. 74, सेक्टर-सी, इन्दौर (म.प्र.)
	(2) श्री केशव पिता श्री त्रिम्बकजी मूल्ये, पता-45, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर विक्रेतापक्ष क्रं. 1 व 2 तर्फे आम मुख्यार श्री अनूपकुमार पिता श्री बाबूलालजी गुप्ता, पता-एच-1, रतलाम कोठी, इन्दौर (म.प्र.)
	(3) मेसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन कम्पनी, (भागीदारी फर्म), द्वारा भागीदार श्री अरविन्द पिता स्व. श्री राजमलजी पोरवाल, पता-30/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.)
क्रेतापक्ष :	श्रीमती स्वदेश शुक्ला पति श्री बृजेश शुक्ला, पता-39-सी, स्कीम नम्बर 51, संगम नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.)

For Rajhans Fertilizers Ltd.,

Director.

92982


13 DEC 2011

प्रथम पेज के साथ संलग्न

Surendra R. (HATOD-WALA)  
STAMP-VENDOR  
Dist. Court Compound, JALANDHAR  
☎-5086480 Mob. 94250-75021

भारतीय मुद्रांक अधि. की धारा  
35 'ब' के अन्तर्गत राजस्व  
175000/- का नं. 719607  
के अन्तर्गत राजस्व नं. 719607

उपरोक्त, जलान्धर



2731-232118